

National Service Scheme – Central University of Haryana

registration link www.linktr.ee/nss_cuh

About National Service Scheme (NSS)

The National Service Scheme (NSS) is a Central Sector Scheme of Government of India, Ministry of Youth Affairs & Sports. It provides opportunity to the student youth of 11th & 12th Class of schools at +2 Board level and student youth of Technical Institution, Graduate & Post Graduate at colleges and University level of India to take part in various government led community service activities & programmes. The sole aim of the NSS is to provide hands on experience to young students in delivering community service. Since inception of the NSS in the year 1969, the number of students strength increased from 40,000 to over 3.8 million up to the end of March 2018 students in various universities, colleges and Institutions of higher learning have volunteered to take part in various community service programmes.

The NSS Badge Proud to Serve the Nation:



All the youth volunteers who opt to serve the nation through the NSS led community service wear the NSS badge with pride and a sense of responsibility towards helping needy.

The Konark wheel in the NSS badge having 8 bars signifies the 24 hours of a the day, reminding the wearer to be ready for the service of the nation round the clock i.e. for 24 hours.

Red colour in the badge signifies energy and spirit displayed by the NSS volunteers.

The Blue colour signifies the cosmos of which the NSS is a tiny part, ready to contribute its share for the welfare of the mankind.

Motto:

The motto of National Service Scheme is **NOT ME BUT YOU**

Benefits of Being a NSS Volunteer:

A NSS volunteer who takes part in the community service programme would either be a college level or a senior secondary level student. Being an active member these student volunteers would have the exposure and experience to be the following:

- an accomplished social leader
- an efficient administrator
- a person who understands human nature

Major Activities:

National Integration Camp (NIC):

The National Integration Camp (NIC) is organized every year and the duration of each camp is of 7 days with day-night boarding & lodging. These camps are held in different parts of the country. Each camp involves 200 NSS volunteers to undertake the scheduled activities.

Objectives of the National Integration Camp

Make the NSS volunteers aware of the following:

- Rich cultural diversity of India
- History of our diversified culture
- National pride through knowledge about India
- To integrate the nation through social service

Adventure Program:

The camps are held every year which are attended by approximately 1500 NSS volunteers with at least 50% of the volunteers being girl students. These camps are conducted in Himalayan Region in the North and Arunachal Pradesh in North East region. The adventure activities undertaken in these camps includes trekking of mountains, water rafting, Para-sailing and basic skiing.

Objectives of Adventure Program

- Promote various adventure activities among NSS volunteers
- Infuse the sense of love towards the various regions of India
- Enhance leadership qualities, fraternity, team spirit and risk taking capacity.
- Improvement of physical and mental strength
- Exposure to new vocational possibilities

NSS Republic Day Parade Camp:

The first Republic Day Camp of NSS Volunteers was held in 1988. The camp takes place in Delhi between 1st and 31st January every year with 200 NSS selected volunteers who are good in discipline, March-past and cultural activities.

A Contingent of selected NSS volunteers participates in the Republic Day Parade at Rajpath, New Delhi on 26th of January every year in accordance with the guidelines and requisition of the Ministry of Defence.

Objectives of NSS Republic Day Parade Camp

- Enable the volunteers to interact with fellow members hailing from various parts of India.
- Experience the tradition, custom, culture, language of all states of India.
- Provide a chance to develop overall personality of the Student volunteers.
- Constitute the bond of patriotism, national integration, brotherhood and communal harmony.

National Youth Festivals

National Youth Festivals are organized every year from 12th to 16th January by the Government of India, Ministry of Youth Affairs & Sports in collaboration with the State Governments in different parts of the country. Eminent guests, speakers and youth icons are invited to address and interact with about 1500 participating NSS volunteers during the National Youth Festivals.

Objectives of National Youth Festivals

- Make the volunteers aware of the various festivals celebrated in the country
- Remind the volunteers of the cultural importance of festivals celebrated in our country
- Provide a chance to the NSS volunteers to interact with the resource person/speaker/youth icons

Programme Coordinator

Prof. (Dr.) Dinesh Chahal

Programme Officer

Unit 01: Prof. (Dr.) Dinesh Chahal

Unit 02: Dr. Renu Yadav

Unit 03: Dr. Pradeep

Date of the event	Name of the event
10 th – 17 th January 2022	75 crore Surya Namaskar program in the Amrit Festival of Independence.
10 th to 12 th January 2022	Idea Sharing by Volunteers for National Youth Festival speech of Prime Minister Shri. Narendra Modi.
24 th January 2022	Women Empowerment Cell (WEC) in collaboration with NSS CUH organized a webinar on the occasion of national girl child day 2022.
26 th January 2022	Celebration of Republic Day 2022
14 th February 2022	Candle march in memory of soldiers martyred in Pulwama
09 th March – 15 th March 2022	NSS Annual Camp
March 2022	HIV/AIDS Awareness Camp
March 2022	First AID and Home Nursing Camp
18 th April to IDY2022	Countdown for International Day of Yoga 2022
31 st May 2022	National Service Scheme, Central University of Haryana organised Youth Parliament 2022 on May 31st 2022.
01 st June 2022	Countdown IDY2022 – NSS Volunteers, Teaching and Non-Teaching staff of Central University of Haryana practicing Yoga
03 rd June 2022	World Bicycle Day
05 th June 2022	Plantation drive in Central University of Haryana on World Environment Day 2022

Date of the event	Name of the event
21 st June 2022	Celebration of International Day of Yoga 2022
19 th July 2022	NSS CUH organised a plantation drive in CUH Campus. Vice-Chancellor Prof. Tankeshwar Kumar, Forest Department officials.
04 th August 2022	Plantation in Adopted Village under HarGhar Tiranga Abhiyaan (page 33)
07 th August 2022	Tiranga Awareness in Adopted Village
08 th August 2022	Tiranga Rally
10 th August 2022	#HarGharTiranga awareness rally under the banner of #AzadiKaAmritMahotsav organized by NSS unit of Central University of Haryana in the presence of Hon'ble VC Prof Tankeshwer Kumar.
13 th August 2022	NSS Units of Central University of Haryana organised Sanskritik Sandhya with DSW Office under #IconicWeek #HarGharTiranga
14 th August 2022	Seminar and Exhibition was organised by Department of History to inform about the significance of Partition. Volunteers of NSS CUH unit actively participated in the event.
15 th August 2022	Independence Day Celebration 2022
16 th August 2022	NSS volunteers of Central University of Haryana started a unique campaign Tiranga Collection Drive after #HarGharTiranga under #AzadiKaAmritMahotsav





National Service Scheme
Central University of Haryana

Tiranga Flag Collection Drive
TREAT THE NATIONAL FLAG WITH DIGNITY

- Handover the Flags, which are no longer in use, to the NSS Volunteer of CUH Unit
- We will preserve the good ones and dispose the damaged ones with respect.

From 16 August onwards

NSS Volunteers for Tiranga Collection
Shivam Kumar 7903813821 Sai Ganesh 9390193736





75
आजादी का
अमृत महोत्सव



Central University of Haryana

Office of Dean Student's Welfare
National Service Scheme (NSS)
organises

"सांस्कृतिक कार्यक्रम"

August 13th, 2022

Chief Patron

02:00 PM Onwards

Prof. Tankeshwar Kumar
Vice-Chancellor

Dean Student's Welfare
Prof. Anand Sharma

Coordinators
Dr. Aarti Yadav
Dr. Dinesh Chahal

Student Coordinators
Ms. Tanisha Sharma
Mr. Shivam Kumar





आजादी का अमृत महोत्सव
75
राष्ट्रीय सेवा योजना
NATIONAL SERVICE SCHEME

Central University of Haryana
National Service Scheme

Tiranga Awareness

Social Media: NSS_CUH



वन विभाग की ओर से हर्केवि महेंद्रगढ़ में 73वां जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। वन मण्डल, महेंद्रगढ़, हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड, पंचकुला, हर्केवि क्लिन कैम्पस ग्रीन कैम्पस क्लब, राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त प्रयासों से आयोजित इस महोत्सव में विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने त्रिवेणी नीम, बरगद व पीपल के पौधे लगाए।

हर्केवि में मनाया 73वां जिला स्तरीय वन महोत्सव




महेंद्रगढ़। वन विभाग की ओर से हर्केवि महेंद्रगढ़ में 73वां जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। वन मण्डल, महेंद्रगढ़, हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड, पंचकुला, हर्केवि क्लिन कैम्पस ग्रीन कैम्पस क्लब, राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त प्रयासों से आयोजित इस महोत्सव में विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने त्रिवेणी नीम, बरगद व पीपल के पौधे लगाए। इस मौके पर हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड, पंचकुला के सदस्य देवराज शर्मा, मिशन महेंद्रगढ़ अग्ना जल रोकथाम विधिम प्रयोग टीम के सदस्य वन रक्षक अभिष्कर्षी चंद्रशेखर, राशिका शर्मा झाड़ली, प्रकृति सुरक्षा गार्डन, प्रकृति दिनेश शर्मा, अशोक कुमार वन दर्शन प्रमोद कुमार कर्मलोक ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. सुनील कुमार, प्रो. राजन अग्नेजा, डॉ. संतोष, प्रो. जयन कुमार मोहन, प्रो. सुनील कुमार, डॉ. दिनेश कुमार, प्रो. हरिनाथ कुमार, डॉ. योगेश कुमार, डॉ. दिनेश चहल, डॉ. पावन चंदन, डॉ. मोना शर्मा, डॉ. केजल रावता खिल रिश्करी, विद्यार्थियों व शोधार्थियों ने भी पौधारोपण किया।

National Service Scheme, Central University of Haryana







I
D
Y

2
0
2
2

Centre For Innovation & Incubation
in association with
Department of Environmental Studies,
Green Campus Clean Campus (GC⁺) Club & NSS
Organizes
Plantation Drive
on
World Environment Day
June 05, 2022 at 7:00 AM

VENUE: New Boy's Hostel Premises

<p>Chief Guest</p>  <p>Prof. Tankeshwar Kumar Honorable Vice-Chancellor CUH, Mahendergarh</p>	<p>Guest of Honor</p>  <p>Sh. Balyogi Mahant Charan Dass Ji Maharaj Hanuman Johdi Dham Bhivani (HR)</p>	<p>Guest of Honor</p>  <p>Prof. Sunil Gupta Honorable Registrar CUH, Mahendergarh</p>	<p>Event Co-ordinator</p>  <p>Prof. Sunita Srivastava Co-ordinator Center For Innovation & Incubation CUH, Mahendergarh</p>
--	--	--	--

Special Guest: Sh. Narendar Kumar, Forest Ranger
Sh. Rajesh Sharma Jharli, In-Charge, Jal Shakti & Podhagiri Abhiyan, M.Garg
Sh. Dinesh Sharma, Block Co-ordinator, Red Cross Society, M.Garh

Organizing Team: Prof. Surender Singh, Prof. Pawan Kumar Maurya, Prof. Parmod Kumar, Dr. Dinesh Chahal, Dr. Mona Sharma, Mr. Pradeep Kumar, Mr. Sunil Kumar and Mr. Dilip Kumar Patel






Central University of Haryana
National Service Scheme
FIT India Freedom Rider Cycle Rally



Central University of Haryana
National Service Scheme
organised
Youth Parliament 2022 on May 31st 2022





महेंद्रगढ़। छात्रा को योगाभ्यास करवाते एनएसएस इकाई के स्वयंसेवक।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन शुरू

महेंद्रगढ़। हकेंवि की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के तत्वावधान में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को योगाभ्यास करवाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने संदेश के माध्यम से कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग का महत्व और अधिक बढ़ गया है। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। योग तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू, प्रतिदिन कराया जा रहा योगाभ्यास



विद्यार्थियों को योगाभ्यास करवाते एनएसएस इकाई के स्वयंसेवक। संवाद

महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के तत्वावधान में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को योगाभ्यास करवाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने संदेश के माध्यम से कहा कि आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में योग का महत्व और अधिक बढ़ गया है। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। योग तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है।

हकेंवि में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू

स्वयंसेवक विद्यार्थियों को करवा रहे योगाभ्यास

महेंद्रगढ़, 22 मई (परमजॉत, मोहन): हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेंवि), महेंद्रगढ़ की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को योगाभ्यास करवाया जा रहा है। संदेश के माध्यम से कहा कि आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में योग का महत्व और अधिक बढ़ गया है। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। योग तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में



विद्यार्थियों को योगाभ्यास करवाते एन.एस.एस. के स्वयंसेवक।

भी सहायता करता है। विश्वविद्यालय की एन.एस.एस. इकाई के संयोजक डा. दिनेश चहल ने बताया कि योग आसन शक्ति, शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जाना जाता है। इस मौके पर स्वयंसेवक नीति ने योगाभ्यास कराया। अमित, शिवम, राएना, रिया, हितेश के साथ 50 के करीब विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया और नियमित योग करने की शपथ भी ली। संवाद





